

## भारत में मोज़ाम्बिकि से तुअर दाल का आयात

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में भारत ने मोज़ाम्बिकि से तुअर दाल का आयात पुनः शुरू कर दिया है, क्योंकि इसे “भारत वरिधी” समूह द्वारा बाधित किया गया था।

### भारत में दालों के आयात की वर्तमान स्थिति क्या है?


- भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में **4.65 मिलियन मीट्रिक टन दालों** का आयात किया (जो वर्ष 2022-23 में 2.53 मिलियन टन से अधिक है), जो वर्ष 2018-19 के बाद से सबसे अधिक है।
  - मूल्य के संदर्भ में **दालों का आयात 93% बढ़कर 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो गया।
- वर्ष 2023-24 में भारत ने 7.71 लाख टन तुअर/अरहर का आयात किया, जिसमें से 2.64 लाख टन (एक तिहाई) **मोज़ाम्बिकि** से आया। **मलावी** भी भारत को तुअर का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।
  - मोज़ाम्बिकि** ने भारत के साथ वर्ष 2025-26 तक **2 लाख टन तुअर/अरहर की दाल** की आपूर्ति के लिये समझौता ज़ापन किया है, जिससे उसे **बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चिता** होगी। इसी तरह मलावी के साथ **एक समझौता ज़ापन के तहत भारत को 0.50 लाख टन की वार्षिक आपूर्ति सुनिश्चिता** की गई है।
- लाल मसूर (Red Lentil)** का आयात, विशेष रूप से **कनाडा** से, दोगुना होकर 1.2 मिलियन टन हो गया।
- पीले मटर (Yellow Peas)** रूस और **तुर्की** से आयात किये जाते हैं।
- भारत सहित दक्षिण एशियाई देश आमतौर पर **कनाडा, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, मोज़ाम्बिकि और तंजानिया** से दालें आयात करते हैं।

### भारत में दलहन उत्पादन की स्थिति क्या है?

- भारत विश्व में दलहन का सबसे **बड़ा उत्पादक** (वैश्विक उत्पादन का 25%), **उपभोक्ता** (विश्व खपत का 27%) तथा **आयातक** (14%) है।
- खाद्यान्न के अंतरगत आने वाले क्षेत्र में **दलहन की हसिसेदारी लगभग 20%** है तथा देश में **कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7-10%** है।
- चना सबसे प्रमुख दलहन** है जिसकी कुल उत्पादन में हसिसेदारी लगभग **40%** है, इसके बाद **तुअर/अरहर की हसिसेदारी 15 से 20%** तथा **उड़द/बलैक मेटपे एवं मूंग दलहन की हसिसेदारी लगभग 8-10%** है।
- हालाँकि दलहन का उत्पादन खरीफ तथा रबी दोनों सीज़न में किया जाता है, **रबी सीज़न में उत्पादित दलहन का कुल उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान** है।
- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक** शीर्ष पाँच दलहन उत्पादक राज्य हैं।

### तुअर दाल के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- यह भारत में एक महत्वपूर्ण **फलीदार (लैग्यूम) फसल और प्रोटीन स्रोत** है।
- यह **उष्णकटिबंधीय और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों** में पाई जाती है।
- जलवायु आवश्यकताएँ:**
  - वर्षा:** सालाना **600-650 मिमी. वर्षा की आवश्यकता होती है**, जिसमें शुरुआत में नमी की स्थिति और फूल आने से लेकर फली बनने तक शुष्क स्थिति वांछनीय है।
  - तापमान:** यह वर्षा ऋतु के दौरान **26°C से 30°C** तथा उसके बाद **17°C से 22°C** के तापमान पर सबसे अच्छी तरह विकसित होता है।
  - मृदा:** इसके लिये रेतीली दोमट या दोमट मृदा आवश्यक है, हालाँकि यह विभिन्न प्रकार की मृदा के अनुकूल हो सकती है।
- यह फली विकास के दौरान **कम विकिरण** के प्रती संवेदनशील है, जिसके कारण यदि मानसून या बादल वाली स्थिति में फूल आते हैं तो फली उत्पादन खराब हो सकता है।
- प्रमुख रोगों में विल्ट, स्ट्रेलिटि मोज़ेक रोग, फाइटोफ्थोरा ब्लाइट, अल्टरनेरिया ब्लाइट और पाउडरी फफूंद/पाउडरी मिल्ड्यू** शामिल हैं।
- शीर्ष उत्पादक राज्य (2019):** कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश



Source: Authors' calculations; Handbook of Statistics, RBI.

//

## भारत में दलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सरकारी पहल

- नीतिगत समर्थन: किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिये नीतिगत सुझाव मुख्य रूप से भारतीय [राष्ट्रीय कृषि सहकारी वपिणन संघ \(NAFED\)](#) और हाल ही में [लघु कृषक कृषि व्यापार संघ \(SFAC\)](#) के माध्यम से किसानों को [न्यूनतम समर्थन मूल्य \(MSP\)](#) प्रदान करके दालों की खरीद पर केंद्रित है।
- [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन \(NFSM\)-दालें](#)
- [अनुसंधान और कृषि विकास में ICAR की भूमिका](#)
- [प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान \(पीएम-आशा\) योजना](#)

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

प्रश्न. भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

- उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है।
- कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है।
- पछिले तीन दशकों में, जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 2
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-to-import-tur-dal-from-mozambique>

